

भारत सरकार/**GOVERNMENT OF INDIA**  
अंतरिक्ष विभाग/**DEPARTMENT OF SPACE**  
विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र/**VIKRAM SARABHAI SPACE CENTRE**  
तिरुवनंतपुरम/**THIRUVANANTHAPURAM - 695 022**  
विज्ञा. सं. वीएसएससी/पी/विज्ञा./एमएमई/06/2025 दि. 31.01.2025  
**ADVT. NO. VSSC/P/ADVT/MME/06/2025 DT. 31.01.2025**

भारत के राष्ट्रपति के लिए तथा उनकी ओर सेवरिष्ठ प्रधान, क्रय एवं भंडार, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (वीएसएससी), तिरुवनंतपुरम, निम्नलिखित के लिए ई-प्रापणके ज़रिए निविदाएं आमंत्रित करता है।

For & on behalf of the President of India, the Sr. Head Purchase & Stores, Vikram Sarabhai Space Centre (VSSC), Thiruvananthapuram invites Tenders **through e-procurement** for the following :-

क्रम सं. Sl. No.	निविदा सं. Tender No.	वर्णन/ Description	मात्रा Qty.	निविदा शुल्क Tender Fee
01	VSSC/PURCHASE UNIT V [MME PURCHASE]/VS202 4 6372 01 <b>[एकल भाग / PUBLIC TENDER SINGLE PART]</b>	1. संचरण इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी (टीईएम) के लिए मिश्रधातु नमूना तैयारी, मात्रा Alloy sample preparation for Transmission Electron Microscopy(TEM), 2. संचरण इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी (टीईएम) में पदार्थ अभिलक्षणीकरण एवं विश्लेषण, मात्रा Materials Characterizations & analysis in Transmission Electron Microscopy(TEM),	100 सं. / 100 Nos.  100 Hrs.	लागू नहीं / NA

Sl. No.	बोली प्रस्तुत करने की समय-सीमा Time limit for submission of Bid	बोली खोलने की तिथि Bid Opening date
01.	Upto 13/02/2025 [14:00 Hrs.]	Upto 13/02/2025 [14:05 Hrs.]

**email:psol\_mme\_pur@vssc.gov.in**

विवरण ई-प्रापण पोर्टल <https://eproc.vssc.gov.in> पर उपलब्ध है।

Details are available on ISRO e-procurement portal <https://eproc.vssc.gov.in>.

शुद्धिपत्र, यदि कोई हो तो, हमारे वेबसाइट [www.vssc.gov.in](http://www.vssc.gov.in) / [www.isro.gov.in](http://www.isro.gov.in) में मात्र प्रकाशित किया जाएगा।

Corrigendum, if any will be published in our websites : [www.vssc.gov.in](http://www.vssc.gov.in) / [www.isro.gov.in](http://www.isro.gov.in) only.

हस्ताक्षरित/Sd/-

वरि. प्रधान, क्रय एवं भंडार / Sr. Head, Purchase & Stores

## Instruction to Bidders

1. E-Tenders are invited for the **Sample preparation & characterization in Transmission Electron Miroscopy** through our E-procurement site <https://eproc.vssc.gov.in>. Bids can be submitted before the due dates mentioned.
2. E-Procurement No. **VSSC/PURCHASE UNIT V (MME PURCHASE)/VS2024006372 01 Dt. 27/01/2025** and Print Media Advertisement ref. No. **VSSC/P/ADVT/MME/ 06 / 2025 DT. 31/01/2025**. E-Tenders are invited for **Sample preparation & characterization in Transmission Electron Miroscopy** through our E-procurement site <https://eproc.vssc.gov.in>. Bids can be submitted **upto 13/02/2025 [14:00 Hrs.], Bid Opening date : 13/02/2025 [14:05 Hrs.]**.
3. Only online tenders will be accepted. No manual / Postal / e-mail / fax offers will be entertained. No manual tender document will be issued. Parties interested to participate in this e-Tender are required to register themselves as vendors, if not already registered, in our e-procurement portal <https://eproc.vssc.gov.in> by downloading plugins and help demos listed on the home page of the e-procurement link mentioned above to complete the vendor registration process. They can seek help from help desk 0471-2565454 also as provided in the home page of e-procurement portal in case of any problem for registration and subsequent process. Vendors may please note that without registering in our e-procurement portal, they will not be able to quote for this e-tender.
4. **IMPORTANT NOTICE**: Tender will be automatically closed on the due date if at least one offer is received. If the tender could not be opened on the first day due to any technical snag, it will be opened on the subsequent day as per the schedule.
5. Full details and specification of the item and general instructions to be followed regarding submission of tender is indicated in the tender document uploaded in our e-procurement portal <https://eproc.vssc.gov.in> .
6. Sr. Head, Purchase & Stores, VSSC, Thiruvananthapuram reserves the right to accept or reject any/or all the tenders in part or full without assigning any reasons thereof.